

बुध ग्रह से संबंधित उपचार और दान आदि

बुध ग्रह को शांत, प्रसन्न और बलशाली बनाकर, बुध ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम या न के बराबर करने और शुभ प्रभावों को बढ़ाकर और शीघ्र प्राप्त करने के लिए बुध ग्रह के लिये निम्नलिखित सरल, प्रभावशाली और पर्यावरणहितैषी उपचार और दान आदि का अपनी क्षमता और सामर्थ्यानुसार प्रयोग में लाएँ जैसे प्रत्येक माह के किसी शुभ मुहूर्त पर तुलसी, इलायची, हरी सब्जियों के पौधे या कोई फलदार पौधा लगाएं। बुधवार के दिन व्रत रखें। पक्षियों को पालें या उनकी सेवा करें। अपने मित्रों और हम उम्र व्यक्तियों की मदद करें और उन्हें प्रसन्न रखें। बुध ग्रह की वैदिक रीति से पूजा करें या करवाएं, तुलसी को जल व दीप दान करना, श्री विष्णु सहस्रनामस्तोत्र का पाठ करना, पन्ना रत्न धारण करें, बुधवार या अमावस्या को व्रत रखें, इलायची बांटें, सप्त अक्षरी बीजक मंत्र का जप करें या वैदिक मंत्र का जप करवाएं, हरी वस्तुओं का दान बुधवार के दिन करना चाहिए जैसे हरी मूंग, हरा वस्त्र, हरी सब्जियां, इलायची, कांसे के बर्तन, मिठाई, फल और घी आदि। यदि सम्भव हो सके तो तुलसी पत्र जल, गोरोचन, शहद, जायफल और नागकेशर आदि के जल से स्नान भी करना चाहिए।